

प्रेषक,

जे०एल०शर्मा,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-02

देहरादून, दिनांक, 30 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सैक्टर -अनापेक्षित आपातकालीन कार्य के अन्तर्गत नदी में सुधार तथा कटाव/पुनर्निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं० 2221/प्र०अ०/सि०वि०/नि०अनु०/पी-27 (राज्य सैक्टर) 13.08.2020 एवं पत्र संख्या 2062 प्र०अ०/सि०वि०/नि०अनु०/पी-27 (राज्य सैक्टर) दिनांक 22.08.2020, पत्र संख्या-2572/प्र०अ०/सि०वि०/नि०अनु०/पी-27 (राज्य सैक्टर) दिनांक 10.09.2020 एवं पत्र संख्या 2859/प्र०अ०/सि०वि०/नि०अनु०/पी-27(राज्य सैक्टर) दिनांक 03.10.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सैक्टर -अनापेक्षित आपातकालीन कार्य के अन्तर्गत नदी में सुधार तथा कटाव/पुनर्निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 44 योजनाओं, कुल लागत ₹ 578.21 लाख (₹ पांच करोड़ अठहत्तर लाख इक्कीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम किस्त के रूप में प्रत्येक योजना लागत का 40 प्रतिशत कुल ₹ 231.30 लाख (₹ दो करोड़ इकतीस लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (ii) व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना/ विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो। अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।
- (iii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
- (iv) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।
- (v) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
- (vi) जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

क्रमशः.....2

- (vii) प्रमुख अभियन्ता आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0-10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (viii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (ix) कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (x) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।
- (xi) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-292/9(150)-2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 एवं समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।
- (xii) आगामी वित्तीय वर्ष में लघु निर्माण कार्य हेतु सुसंगत मद में बजट प्राविधान कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियंत्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-03-अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव/पुनर्निर्माण-53-वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-1070/XXVII(1)/2020, दिनांक: 27 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(जे0एल0शर्मा)  
संयुक्त सचिव।

संख्या-1198(1)/11(2)/2021-04(06)/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कोलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग।
5. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
6. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्यें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(दिनेश सिंह बड़वाल)  
अनु सचिव।




1	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत गोरी नदी के बायें पार्श्व पर स्थित ग्राम घट्टाबगड़ में डायवर्जन/चैनेलाईजेशन के निर्माण कार्य की योजना।	11.86	4.744
2	आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा मद के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में गोरी नदी के बायें पार्श्व पर स्थित ग्राम छोरीबगड़ में स्पर निर्माण कार्य की योजना।	15.03	6.012
3	आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा मद के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में कालिका गाढ़ के बायें एवं दायें पार्श्व पर स्थित कालिका कस्बे में तात्कालिक कटाव निरोधक कार्य	12.92	5.168
4	आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा मद के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में गलाती गाढ़ के दायें पार्श्व पर स्थित नागलिंग एवं गलाती एवं बायें पार्श्व पर सीपू कस्बे में तात्कालिक कटाव निरोधक कार्य।	16.62	6.648
5	आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा मद के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में गुईया गाढ़ के बायें पार्श्व पर स्थित ग्राम बलुवाकोट के तोक गाड़ाबगड़ में कटाव निरोधक कार्य।	14.65	5.86
6	आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा मद के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में लठिया गाढ़ के दायें पार्श्व पर स्थित ग्राम धामीगांव के तोक सानोखेत में कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य।	9.82	3.928
7	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में खौतेला एवं धारचूला को जोड़ने वाले पैदल पुल एवं पैदल मार्ग की घटगाड़ नाले से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य।	4.9	1.96
8	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में मल्लिकार्जुन स्कूल के पास तात्कालिक भूस्खलन रोकने हेतु वायरक्रेटों के निर्माण कार्य का आगणन।	2.48	0.992
9	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में स्थित सुवा तोक में मकानों की भूस्खलन से रोकथाम हेतु सुरक्षा दीवार का कार्य।	12.47	4.988
10	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में काली नदी के दायें पार्श्व पर स्थित खौतेला गोंव की सुरक्षा हेतु खौतेला बाढ़ सुरक्षा योजना के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य।	4.46	1.784
11	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में ज्यूति नदी के बायें पार्श्व पर स्थित ग्राम छलमाछिलासों छिल्दांग तोक नयाबस्ती में कटाव निरोधक कार्य का आगणन।	15.09	6.036
12	अनापेक्षित आपातकालीन कार्य के अन्तर्गत नालापानी नदी पर राजा राममोहन कालोनी पुल से वाणी विहार पुल के मध्य विभिन्न स्थानों पर वायरक्रेट लगाने का कार्य।	9.17	3.668
13	अनापेक्षित आपातकालीन कार्य के अन्तर्गत रिस्पना नदी पर काठ बंगला पुल से दौड़ वाला के मध्य विभिन्न स्थानों पर वायरक्रेट लगाने का कार्य।	14.52	5.808
14	अनापेक्षित आपातकालीन कार्य के अन्तर्गत बिन्दाल नदी में आजाद कालोनी, गोविन्दगढ़ से एन0एच0-72 तक स्थित पुल के मध्य तक विभिन्न स्थानों पर वायरक्रेट का कार्य।	19.32	7.728
15	अनापेक्षित आपातकालीन कार्य के अन्तर्गत दुल्हनी के विभिन्न स्थानों पर वायरक्रेट का कार्य।	4.59	1.836

16	अनापेक्षित आपातकालीन कार्य के अन्तर्गत मुस्लिम कालोनी गांधी ग्राम में बिन्दाल नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य।	13.87	5.548
17	अनापेक्षित आपातकालीन कार्य के अन्तर्गत गंगा राम जी के घर के पीछे बिन्दाल नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य।	10.11	4.044
18	अनापेक्षित आपातकालीन कार्य के अन्तर्गत जनपद देहरादून के अन्तर्गत आकृति विहार भारुवाला ग्रान्ट क्लेमनटाउन में बह रहे नाले के दोनों तटों पर बाढ़ सुरक्षा कार्य।	14.32	5.728
19	अनापेक्षित आपातकालीन कार्य के अन्तर्गत ग्राम रसोईयापुर व झुकहा को कैलाश नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु नदी के चैनलाईजेशन का कार्य।	12.11	4.844
20	जनपद उत्तरकाशी के मोरी विकासखण्ड में दैवीय आपदा के अन्तर्गत आराकोट में गैस गोदाम के पास बाढ़ सुरक्षा कार्य (प्रथम लेयर)।	7.75	3.1
21	जनपद देहरादून के डोईवाला विकासखण्ड के अन्तर्गत सौंग नदी के दायें तट पर स्थित गौहरीमाफी में प्राइमरी स्कूल के पास स्पर लगाने का कार्य।	14.84	5.936
22	जनपद देहरादून के डोईवाला विकासखण्ड के अन्तर्गत सौंग नदी के दायें तट पर स्थित गौहरीमाफी में टावर के पास स्पर लगाने का कार्य।	14.84	5.936
23	जनपद देहरादून के डोईवाला विकासखण्ड के अन्तर्गत सौंग नदी से गौहरीमाफी की सुरक्षा हेतु चैनलाईजेशन का कार्य।	12.12	4.848
24	River Channelisation Work Of Simgadh River For Protection Of Village Nachni Ghatan At Block Munsyari Of Distt. Pithoragarh.	11.10	4.44
25	River Channelisation Work Of Ramganga River For Protection Of Village Nachni At Block Munsiyari Of Distt. Pithoragarh.	15.54	6.216
26	Anti Erosion Work Of Nachni Village On The Right Bank Of Bujhghadh River in Munsyari Block Pithoragarh District.	19.72	7.888
27	Anti Erosion Work Of Nachni Village On The Right Bank Of Bujhghadh River in Munsyari Block Pithoragarh District.	15.78	6.312
28	Flood Protection Work Of Village Khetbharar On Left Bank Of Barar Gadh At Block Munsyari Of Distt. Pithoragarh.	19.85	7.94
29	जनपद पिथौरागढ़ में विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम मदकोट के तोक धामी गाँव की मन्दाकिनी नदी से सुरक्षा हेतु दाँयें तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य का प्राक्कलन।	15.76	6.304
30	जनपद पिथौरागढ़ में विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम मदकोट के तोक भौराबगढ़ की गोरी नदी से सुरक्षा हेतु बाँयें तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य का प्राक्कलन।	11.26	4.504
31	जनपद पिथौरागढ़ में विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम मदकोट के तोक भौराबगढ़ की मन्दाकिनी नदी से सुरक्षा हेतु दाँयें तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य का प्राक्कलन।	14.20	5.68
32	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के दाँयें तट पर भोगपुर बालावाली तटबन्ध एवं फतवा, रायघटी ग्राम की आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा योजना।	9.82	3.928
33	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के दाँयें तट पर भोगपुर बालावाली तटबन्ध एवं शिवपुरी, गंगदासपुर ग्राम की आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा योजना।	9.52	3.808
34	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के दाँयें तट पर भोगपुर बालावाली तटबन्ध एवं तिलकपुरी, भोगपुर ग्राम की आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा योजना।	9.67	3.868
35	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के दाँयें तट पर भोगपुर बालावाली तटबन्ध एवं रणजीतपुर ग्राम की आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा योजना।	9.58	3.832

36	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के दौरे तट पर भोगपुर बालावाली तटबन्ध एवं पीटापुरी, रामपुर रायघटी ग्राम की आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा योजना।	9.46	3.784
37	जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुनैन के कुनिया में कृषि भूमि व भवनों की कुनिया खड्ड से बाढ़ सुरक्षा योजना।	17.42	6.968
38	जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुनैन के अन्तर्गत रोहटा छानी में कृषि भूमि व भवनों की गाडोई खड्ड से बाढ़ सुरक्षा योजना।	16.58	6.632
39	जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हाजा में कलटाड खड्ड एवं पन्दरियाडा खड्ड से बाढ़ सुरक्षा योजना।	16.34	6.536
40	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड प्रतापनगर में बौसाड़ी नहर कि०मी० 4.000 में बाढ़ से सुरक्षा कार्य योजना।	9.90	3.96
41	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड प्रतापनगर में महड़ गदेरा के कटाव से ग्राम पिपलोगी की सिंचाई कृषि भूमि पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की योजना।	19.82	7.928
42	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड प्रतापनगर में जलकुर नदी के कटाव से ग्राम बुडकोट (चिनयाली सेरा) की सिंचाई कृषि भूमि पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की योजना।	19.42	7.768
43	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड प्रतापनगर में गोदड़ी गाड के कटाव से ग्राम गैरी राजपूतों की कोरदी, बेथाण, क्यार्की व हलेथ की सिंचाई कृषि भूमि पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य योजना।	19.82	7.928
44	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड प्रतापनगर में गोदड़ी गाड के कटाव से ग्राम बुडकोट, बैल्डोगी, कण्डियालगांव की सिंचाई कृषि भूमि पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की योजना।	19.79	7.916
	<b>कुल योग</b>	<b>578.21</b>	<b>231.30</b>

(रु० दो करोड़ इकतीस लाख तीस हजार मात्र)

  
(जे०ए०शर्मा)  
संयुक्त सचिव।